

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2015—भाद्र 12, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 15 मई 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ, 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला बालाघाट, अशोकनगर एवं उज्जैन के ग्रामों की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ, 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016		100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
			2015-2016	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची	धान	धान	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	सिंचित	असिंचित				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
बालाघाट	कटंगी	कटंगी	00001	कोडमी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00002	जमुनिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00003	बनेरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00004	सिंगोडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00005	उजाडबोपली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00006	चिचगांव	धान सिंचित	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
बालाघाट	कटंगी	कटंगी	00007	लोहमारा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00008	खमरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00009	बिसापुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00010	टेकाडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00011	खैरलाजी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00012	कामठी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00013	समदपुरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00014	देवठाना	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00015	बासी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00016	देवरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00017	नंदौरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00018	कालीमाटी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00019	लिंगापौनार	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00020	टेकाडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00021	महदुली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00022	मानेगांव	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00023	चौखण्डी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00024	चिकमारा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00025	पाथरवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00026	अर्जुननाला	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00027	कटंगी नजूल	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00028	उमरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00029	सेलवा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00030	खजरी		धान असिंचित	-	-	-	-
			00031	सीता खोह		धान असिंचित	-	-	-	-
			00032	अगरवाड़ा	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00033	नंदलेसरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00034	कलगांव	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00035	बाहकल	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00036	सांवगी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00037	अगासी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00038	कोसमी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00039	कटेरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00040	घुनाडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00041	भजियापार	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00042	टेकाडी भ	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00043	सिरपुर	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00044	वरुड	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00045	लखनवाडा	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00046	आगरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00047	जाम	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00048	अर्जनी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00049	जराहमोहगांव	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		माटे								
			00023	बुढी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00024	डुंडासिवनी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00025	मोहगांवखुर्द	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00026	निमदेवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00027	कुन्डे		धान असिंचित	-	-	-	-
			00028	करियादण्ड		धान असिंचित	-	-	-	-
			00029	कसंगी		धान असिंचित	-	-	-	-
			00030	गोदरी		धान असिंचित	-	-	-	-
			00031	डोगरगांव		धान असिंचित	-	-	-	-
			00032	सुसवा		धान असिंचित	-	-	-	-
			00033	भालवा	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00034	मडकापार		धान असिंचित	-	-	-	-
			00035	केशा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00036	माटे	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00037	बक्कर		धान असिंचित	-	-	-	-
			00038	साल्हे		धान असिंचित	-	-	-	-
			00039	दहेदी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00040	दत्ता		धान असिंचित	-	-	-	-
			00041	पाला	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00042	मुर्ी		धान असिंचित	-	-	-	-
	लांजी	लांजी								
			00054	सावरीखुर्द	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00055	बिरनपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00056	भुरसाडोगरी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00057	कालीमाटी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00058	बिसोनी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00059	दुल्हापुर	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00060	लांजी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00061	पौसेरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00062	कन्सुली	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00064	नेवरवाही	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00065	बैलगांव	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00066	देवरबेली	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00067	नंदौरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00068	खुर्सीटोला	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00069	घोटी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00072	खांडाफरी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00073	थानेगांव	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00074	बारी	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00075	बम्हनवाडा	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00076	ओटकसा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00077	रिसेवाडा	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			00078	अंधियाटोला	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची**  
**जिला अशोकनगर**

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अशोकनगर	शादोरा	शादोरा	1 से 35 तक.	बरखेडानाई से भैसरवास तक.	-	-	सोयाबीन	-	-	-

**टीप :-**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत दिनांक 15-5-2015 को राजपत्र में मौसम खरीफ की अधिसूचना जारी की गई थी. राजपत्र के पत्र पृष्ठ क्रमांक 370 (414) पर अंकित जिला अशोकनगर की तहसील नईसराय अंकित किया गया है, उपरोक्तानुसार संशोधित अधिसूचना अनुसार तहसील शादोरा राजस्व निरीक्षक मण्डल शादोरा पढ़ा जावे.

राजपत्र में प्रकाशन से शेष पटवारी हल्कों की जानकारी (जिनका प्रकाशन होना है) जिला उज्जैन

मौसम खरीफ

वर्ष 2015-16

क्र.	जिला	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मण्डल का क्र. व नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी हल्का मुख्यालय का नाम	फसल का नाम	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उज्जैन	महिदपुर	1. झारडा	21	झुटावद	सोयाबीन	
2			2. महिदपुर	60	घट्टियाजस्सा	सोयाबीन	
3		नागदा	1. नागदा	16	अजीमाबाद पारदी	सोयाबीन	
4				17	भाटीसुंड़ा	सोयाबीन	
5				18	भीलसुड़ा	सोयाबीन	
6				20	अमलावंदिया जुनादा	सोयाबीन	
7				21	सिमरोल	सोयाबीन	
8				22	डाबरी	सोयाबीन	
9				23	पाडल्याकला	सोयाबीन	
10				24	रत्नाखेड़ी	सोयाबीन	
11				25	बनबना	सोयाबीन	
12				26	गुराड़िया पित्रामल	सोयाबीन	
13				27	रूपेटा	सोयाबीन	
14				28	आक्याकोली	सोयाबीन	
15				29	बोरखेड़ा पित्रामल	सोयाबीन	
16				30	रानी पिपल्या	सोयाबीन	
17				31	हिड़ी	सोयाबीन	
18				32	अन्तरालिया	सोयाबीन	
19			2. उन्हेल	33	पानखेड़ी	सोयाबीन	
20				34	गुराड़िया सांगा	सोयाबीन	
21				35	पिपलिया सारग	सोयाबीन	
22				36	आलोट जागीर	सोयाबीन	
23				37	करनावद	सोयाबीन	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	उज्जैन	नागदा	2-उन्हेल	38	पगारा	सोयाबीन	
25				39	झिरन्या उन्हेल	सोयाबीन	
26				36	अमलावदकला	सोयाबीन	
27				37	बालोदा हसन	सोयाबीन	
28				38	दुनालजा	सोयाबीन	
29				39	हरनावदा	सोयाबीन	
30				40	उकारपुरा	सोयाबीन	
31				41	सिजावता	सोयाबीन	
32				42	गावडीलोधा	सोयाबीन	
33				43	धुरेरी	सोयाबीन	
34				44	सरसाना	सोयाबीन	
35				45	सुनेड़ा	सोयाबीन	
36				46	किलोली	सोयाबीन	
37				47	नरसिंगा	सोयाबीन	
38				48	दंगवाड़ा	सोयाबीन	
39				49	बलेड़ी	सोयाबीन	
40				50	घुड़ावन	सोयाबीन	
41				51	झुमकी	सोयाबीन	
42				52	पात्याखेड़ी	सोयाबीन	
43				53	जहाँगीरपुर	सोयाबीन	
44				54	मालपुरा	सोयाबीन	
45				55	अमलाबदबीका	सोयाबीन	
46				56	पलसोड़ा	सोयाबीन	
47				57	मकड़ावन	सोयाबीन	
48				58	महुडीआलम	सोयाबीन	
49				59	सुवासा	सोयाबीन	
50				60	कंजड़	सोयाबीन	
51				61	असलावदा	सोयाबीन	
52				62	कोठड़ी	सोयाबीन	
53				63	नारेलाकला	सोयाबीन	
54				64	रूपाहेड़ा	सोयाबीन	
55				65	बमनापाती	सोयाबीन	
56				66	खड़ोतिया	सोयाबीन	
57				67	कुलावदा	सोयाबीन	
58				68	मनियावदा	सोयाबीन	
59				69	इंगोरिया	सोयाबीन	
60				70	चिकली	सोयाबीन	
61				71	कढाई	सोयाबीन	
62				72	निम्बोदा	सोयाबीन	
63				73	घड़सिंगा	सोयाबीन	